



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 368]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 10, 1979/भाद्र 19, 1901

No. 368]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 10, 1979/BHADRA 19, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग  
नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1979  
अधिसूचना

का. आ. 522(अ).—भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 5 और 10, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आर्बटन) आदेश, 1968 के पैरा 3, 6, 7, 8 और 18 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 324 के द्वारा निर्वाचन आयोग को प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने तारीख 10 सितम्बर, 1979 के आदेश द्वारा "सिक्किम कांग्रेस (आर.)" को एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करने का और उस दल के लिए 'उदीयमान सूर्य' प्रतीक आरक्षित करने का विनिश्चय किया है ;

और, उक्त आदेश के परिणामस्वरूप सिक्किम राज्य के लिए मुक्त प्रतीकों की सूची में अब तक सम्मिलित किए गए 'उदीयमान सूर्य' प्रतीकों की उक्त सूची से हटाना पड़ेगा ;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आर्बटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप-पैरा (1) के

खण्ड (ख) और (घ) तथा उप-पैरा (2) के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3(2), तारीख 25 जनवरी, 1978 में का. आ. 40(अ) के रूप में प्रकाशित और तत्पश्चात् समय-समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना संख्या 56/78, तारीख 25 जनवरी, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

- (1) उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी 2 में स्तम्भ 1, 2 और 3 में सिक्किम राज्य से सम्बन्धित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"सिक्किम 1. सिक्किम शाब्दूलु  
कास्टस लीग

चपचा

2. सिक्किम कांग्रेस (आर) उदीयमान सूर्य"

- (2) उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी 3 में स्तम्भ 1 में मद संख्या "18 सिक्किम" के सामने स्तम्भ 2 में "6 उदीयमान सूर्य" प्रविष्टि हटाई जाएगी

और उक्त स्तम्भ 2 में 7 से 16 तक की प्रविष्टियां 6 से 15 तक के रूप में पुनः संख्यांकित की जाएंगी।

[संख्या 56/79(7)]

आदेश से,

कै. गणेशन, सचिव

#### ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 10th September, 1979

#### NOTIFICATION

**S.O. 522(E).**—Whereas by its order dated the 10th September, 1979, the Election Commission, in exercise of the powers conferred on it by Article 324 of the Constitution read with rules 5 and 10 of the Conduct of Elections Rules, 1961, Paragraphs 3, 6, 7, 8 and 18 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 and all other powers enabling it in this behalf, has decided to recognise "Sikkim Congress (R)" as a State party and to reserve the symbol 'Rising Sun' to it ;

And whereas as a consequence of the said order the symbol 'Rising Sun' hitherto included in the list of free symbols for the State of Sikkim shall have to be deleted from the said list of free symbols ;

Now, therefore, in pursuance of clauses (b) and (d) of sub-paragraph (1) and sub-paragraph (2) of paragraph 17 of the Elections Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Commission hereby makes the following amendments in its notification No. 56/78 dated 25th January, 1978 published as S.O. 40(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii), dated the 25th January, 1978, and as amended from time to time, namely:—

- (i) in Table 2 appended to the said notification, for the existing entries in columns 1, 2 and 3 relating to the State of Sikkim, the following entries shall be substituted namely :—

"Sikkim 1. Sikkim Scheduled Castes League—Chepcha  
2. Sikkim Congress (R)—Rising Sun";

- (ii) in Table 3 appended to the said notification, against item No. 18-Sikkim in Column 1, the entry "6, Rising Sun" in Column 2 shall be deleted and entries 7 to 16 in the said column 2 shall be renumbered as 6 to 15.

[No. 56/79 (7)]

By order,

K. GANESAN, Secy.